

प्रेस - नोट दिनांक 30.08.2021

थाना - आँवला, जिला - बरेली।

थाना आँवला #bareillypolice द्वारा द्वारा कस्बा आँवला से अपहृत बच्चा उम्र करीब 04 वर्ष निवासी मो0 पट्टी गली कस्बा व थाना आँवला बरेली को त्वरित कार्यवाही करते हुए अल्प समय में बरामद करते हुए अपरहणकर्ता को किया गिरफ्तार।

कस्बा आँवला जिला बरेली से आज दिनांक 30.08.2021 को मोहल्ला पट्टी कुर्की से एक बच्चा उम्र करीब 04 वर्ष निवासी मो0 पट्टी कुर्की कस्बा व थाना आँवला बरेली के गुम होने की सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी महोदय आँवला के पर्यवेक्षण में गठित की गई टीम एवम् प्रभारी निरीक्षक आँवला के नेतृत्व में निरीक्षक अपराध द्वारा गुमशुदा बच्चे को सैटलाईट बस अड्डे से स्थानीय पुलिस व अपहृत के परिजनों के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए अल्पतम समय में बरामद करते हुए अपरहणकर्ता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.08.2021 को अपहृत बच्चा उम्र करीब 04 वर्ष निवासी मो0 पट्टी कुर्की कस्बा व थाना आँवला बरेली की मोखिक रूप से गुम होने की सूचना पर उक्त सूचना से उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराया गया। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय व प्रभारी निरीक्षक महोदय के द्वारा उक्त घटना के निराकरण हेतु समस्त चौकी ईंचार्ज व हल्का प्रभारियों को मय फोर्स अपहृत की बरामदगी हेतु टीम बनाकर मामूर किया गया एवम् घटना से कंट्रोल रूम के जरिए सभी थानों, शाखाओं को अपहृत की बरामदगी हेतु तलाश करने हेतु सूचना प्रसारित कराया गया। निरीक्षक अपराध श्री वेदप्रकाश गुप्ता को उक्त अपहृत के पतारसी सुरागरसी के दौरान प्राप्त सूचना पर अपहृत को सैटलाईट बस अड्डा से स्थानीय पुलिस व परिजनो के सहयोग से अल्पतम समय में अपहरणकर्ता बन्टी पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम टांडा थाना आँवला जिला बरेली हाल निवासी सैन्धा चापट थाना भमौरा बरेली को गिरफ्तार कर अपहृत बच्चे व अभियुक्त बन्टी उपरोक्त के थाने पर उपस्थित आये एवम् अपहृत बच्चे को परिजनो व पुलिस के माध्यम से मेडिकल हेतु रवाना किया गया। अपहृत के परिजनो की सूचना पर उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 413/21 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ है। उक्त अभियोग का जनपद पुलिस द्वारा अल्पतम समय में निराकरण किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान का तरीका वारदात:- अभियुक्त बन्टी कुमार उपरोक्त द्वारा घर के सामने खेल रहे बच्चे को 10 रुपये दिखाकर बहला फुसलाकर आँवला से बस के द्वारा सैटलाईट बस अड्डे पर बाहर जाने के लिए ले जाना।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. बन्टी पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम टांडा थाना आँवला जिला बरेली हाल निवासी सैन्धा चापट थाना भमौरा बरेली

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह थाना आँवला जिला बरेली।
2. निरीक्षक अपराध श्री वेदप्रकाश गुप्ता थाना आँवला जिला बरेली।
3. कां0 2149 विपिन कुमार थाना आँवला जिला बरेली।
4. कां0 89 बन्टी कुमार थाना आँवला जिला बरेली।
5. कां0 1233 शिवांशु राठी।